



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 20—मार्च 26, 2005, शनिवार/फाल्गुन 29, 1926—चैत्र 5, 1927
No. 5] NEW DELHI, MARCH 20—MARCH 26, 2005, SATURDAY/PHALGUNA 29, 1926—CHAITRA 5, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2005

आ. अ. 22.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के विनिर्दिष्ट कर्नाटक विधान सभा 2004 के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (2) में निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 तथा तत्कालीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा अथवा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी			
क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्थता का कारण
1	2	3	4
1.	1—औराद	श्री माचिन्द्र हुनाजे, मचिन्द्र संग्राममण्णा, निवासी निटदुर (के), तालुक औराद (वी) कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	2—भाल्की	श्री मारुथी, कल्वाडी—ग्राम, भाल्की, तालुक कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	2—भाल्की	श्री त्रिम्बक ग्राम निटदुर (वी), भाल्की तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
4.	2—भाल्की	श्री राजकुमार सी माशेट्टी गाल्लिक, भाल्की, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
5.	2—भाल्की	श्री राजकुमार एस. कुम्बारगाल्लिक, भाल्की, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
6.	3—हुल्सूर (अ.जा.)	श्री शिवनगाता चादुर, के.एच.वी. कालोनी, एम.आई.जी. 6, बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
7.	3—हुल्सूर (अ.जा.)	श्रीमती शोभाबाई बीजापुरे, इन्दुर, तालुक भाल्की, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
8.	4—बीदर	श्री रफात मतीन, सं. 19-1-94 बैंकर कालोनी, दक्षिण शिवनगर, बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
9.	5—हुम्नाबाद	श्री शिवराज एन. कटागी, बगदल, तालुक व जिला बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
10.	5—हुम्नाबाद	श्री बासवराज टाम्बाके, तालुमदगी, तालुक हुम्नाबाद, जिला बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
11.	5—हुम्नाबाद	श्रीमती शोभरानी, एल आई जी कालोनी, हुम्नाबाद, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
12.	5—हुम्नाबाद	श्री मल्लप्पा मनीकप्पा पतरपल्ली, पोस्ट—सिन्दोल, तालुक व जिला बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
13.	5—हुम्नाबाद	श्री मल्लिकार्जुन कामन्ना सिरसी (ए.), सिरसी (ए.), तालुक व जिला बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
14.	6—बासवाकल्याण	श्री निसार अहमद मो. हुसैन, मेन रोड, किला गली, बासवाकल्याण, जिला बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
15.	6—बासवाकल्याण	श्री सरदार खान, गडिबान गली, बासवाकल्याण, जिला बीदर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
16.	9—अलान्द	श्रीबासवराज बी. दिग्गावी, घाटगे ले-आउट, गुलबर्गा, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
17.	11—शाहाबाद (अ.जा.)	श्री चन्द्रशेखर नाईक, सिद्धु नाईक, म. नं. 2—3—41, एच एम पी कालोनी, शाहाबाद-585229 कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
18.	11—शाहाबाद (अ.जा.)	श्री सुभाष एस. पवार, सिबार कटटा, शाहाबाद, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
19.	11—शाहाबाद (अ.जा.)	श्री सुरेश बसान्ना गौर, म.नं. एम आई जी 41, के एच बी कालोनी, पुरानी जवारगी रोड, गुलबर्गा, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
20.	11—शाहाबाद (अ.जा.)	श्री मोहन हुबली, टी आर टी/46/6 एसीसी कालोनी, वाडी 585225, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
21.	11—शाहाबाद (अ.जा.)	श्री तिम्माय्या बी. अरमाने, दरियापु, अम्बिका नगर कटनूर (डी), गुलबर्गा,	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
22.	12—अफजलपुर	श्री मल्लिकार्जुन शिवाप्पा, मिन्चिन, पोस्ट—अटनूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
23.	12—अफजलपुर	डा. इंदिरा शक्ति, म. नं. 7—1101/44 ए, लाहौटी ले-आउट, गुलबर्गा, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
24.	12—अफजलपुर	श्री हुळप्पा बसाना गौर, पोस्ट गौर (बी.) कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
25.	12—अफजलपुर	श्री शिवपुत्राप्पा, हनमन्नाओ महंतपुर 10—1061, शराना नगर, गुलबर्गा, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
26.	12—अफजलपुर	श्री शंकारगुडा पाटिल, उदाचान, पोस्ट उदाचान, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
27.	12—अफजलपुर	श्री सैबाना भीमाशा अवाटे, मकान नं. 5—68 बी. अफजलपुर कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
28.	12—अफजलपुर	श्री महानटप्पा एस. तलवार, मो./पोस्ट—तेल्लूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
29.	15—जेवर्गी	श्री खाजा पटेल, मकान नं. 16—59, नीयर मदीना मस्जिद खाजा कालोनी, जेवर्गी, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
30.	13—जेवर्गी	श्री कल्लालिंगा ईसवाराप्पा हुगर, नेलोगी पोस्ट, जेवर्गी तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
31.	15—जेवर्गी	श्री धर्मान्ना इटागा, इटागा पोस्ट, जेवर्गी तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
32.	16—गुर्मिल्ल (अ.जा.)	श्री गोपाल बी. दासानकेरी, मकान नं. 4—2—36, डा. बी.आर. अम्बेडकर नगर, यादगीर-585201, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
33.	17—यादगीर	श्री शौकत अली, मकान नं. 5—2—145 मदनपुर, स्टेशन एरिया, यादगीर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
34.	18—शाहापुर	श्री वेंकटेश्वर एस. राठौड़, मड्डी तान्डा, चामनाल ता., शाहापुर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
35.	18—शाहापुर	श्री हनुमन्त, मुरबूल ता., शाहापुर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
36.	18—शाहापुर	श्री भीमार्या, हालीसागर ता., शाहापुर, कर्नाटक	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया।
37.	27—येलबुर्गा	श्री मन्जुनाथ सोरुतुर, निवासी बेनकल, ता. येलबुर्गा, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
38.	29—गंगावती	श्री एल. कृष्णा लक्ष्माप्पा, रामपुर (आवास) पी.ओ. मल्लापुर, ता. गंगावती, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
39.	29—गंगावती	श्री महेश हिरेमथ, कनकगिरी (आवास) ता. गंगावती, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
40.	30—कोप्पल	श्री कोडीहल्ली चन्द्रशेखर, मकान नं. 34, मारून नगर, अरिसिकेरी, हास्सन जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
41.	32—कुरुगोडु	श्री बी. शिवलिंगा, सुपुत्र श्री हुसेनप्पा, कार्नेदु ग्राम, बेल्लारी (ता. व (जिला)), कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
42.	32—कुरुगोडु	श्री अरूण कुमार, पुत्र श्री सन्ना इरप्पा, 5वां वार्ड, मुन्डारगी ग्राम, बेल्लारी, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
43.	33—बेल्लारी	श्री सीरिगेरी पेन्नाराज, बंगलौर रोड, बेल्लारी, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
44.	33—बेल्लारी	श्री एच. वीरूपाक्ष गौड़ा, 79—8, 17वां वार्ड, एस. एन. पेट, बेल्लारी, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
45.	33—बेल्लारी	श्री एच. अलेश्वर गौड़ा, सुलोचनाम्मा कम्पाउण्ड, गांधी नगर बाजार के पास, बेल्लारी, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
46.	34—होस्पेट	श्री ई. चन्द्रा मौली, सुपुत्र श्री ई. सोपाप्पा, 4वां वार्ड, श्री लक्ष्मी टाकीज के पास काम्पली, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
47.	34—होस्पेट	श्री रूद्र रेड्डी जी, सुपुत्र श्री गोवरम्मा, सं. 8, 4वां क्रॉस, एअरपोर्ट रोड, बेल्लारी-4, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
48.	35—सुन्दुर	श्री बी. राजशेखर गौड़, सुपुत्र श्री बी. शिवप्पा, यशवन्त नगर, (पोस्ट), सुन्दुर (ता.) बेल्लारी (जिला) कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
49.	36—कुडलिगी	श्री अब्दुल नाबी, सुपुत्र मस्तान साब, कोल बाजार, बेल्लारी तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
50.	36—कुडलिगी	श्री शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन, सुपुत्र शेख मेहबूब, धोबी स्ट्रीट, बेल्लारी तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
51.	38—हाडागल्ली	श्री लक्कननानवारा मल्लापा (म. व. पो.), हुवीनाहादागली तालुक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
52.	47—चल्लाकेरे	श्री एच. जगलैय्या, सुपुत्र एनुमैय्या, मदाकरी नगर, चल्लाकेरे, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
53.	48—हिरियुर (अ.जा.)	श्री बी. भीमैय्या, 135, 5वीं मैन, के.जी.ई. लेआउट, देवासान्द्रा, आर.एम.वी. सैंकड स्टेज, बंगलौर-94, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
54.	48—हिरियुर (अ.जा.)	श्री बी. धिम्मैया, गुडीहल्ली गांव, इमानगाला होब्ली, हिरियुर तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
55.	49—होलाल्केरे	श्री एन. जयप्पा, सुपुत्र नागप्पा, पाडीगाट्टे, होलाल्केरे तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
56.	56—कोराटागेरे	श्री चिक्कीरप्पा टी. जी., सुपुत्र गंगन्ना, कालीदास हाई स्कूल के पीछे,	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
		गोन्डीहल्ली रोड, कोराटागोरे टाउन, दुमकुर जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
57.	57-दुमकुर	श्री एस. कुमार, सुपुत्र शिवन्ना, सीबी कोटा, हनुमन्थापुरा, दुमकुर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
58.	57-दुमकुर	श्री शिवकुमार एच. आर., सुपुत्र एच.एस. राजशेखरय्या, चौथी मैन रोड, सिद्दगंगा एक्सटेंशन, दुमकुर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
59.	58-कुनिगल	श्री बी. टी. श्रीनिवास गौड़ा, सुपुत्र बी. थिम्मी गौड़ा, 1662, महावीरा नगर, कुनिगल, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
60.	58-कुनिगल	श्री पी. सुरेश, सुपुत्र परशुरामैया, सिद्धार्थ कालोनी, कुनीगल कस्बा, दुमकुर जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
61.	60-गुब्बी	श्री चिकनानजैया, सुपुत्र डोड्डाननजैया, डोड्डानेटयगुन्टे एम. एच. पटना पोस्ट, गुब्बी तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
62.	61-दुरुवेकेरे	श्री कृष्णप्पा, सुपुत्र मायाशेट्टी गौड़ा, गोदटीकेरे, कस्बा, होब्ली, दुरुवेकेरे तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
63.	78-गांधी नगर	श्री के.सी. रहमतुल्ला, सं. 30, 5वां मेन रोड, गांधी नगर, बंगलौर-560009. कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
64.	79-चिकपेट	श्री अब्दुल्ला सं. 1, चौथा क्रॉस, बीरदेवारा गुडी लेन, रनासिंह पेट, बंगलौर-53 कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
65.	80-बिन्नीपेट	श्री उदय शंकर सं. 172, एम आई जी 'सी' बिल्डिंग, सं. 8, द्वितीय तल, तीसरा स्टेज,	लेखा दाखिल नहीं किया

1	2	3	4
		के एच बी कालोनी, कंगरी सैटेलाइट शहर, बंगलौर-560060, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
66.	82-बसवानागुडी	श्री एन. सी. कृष्ण कुमार, 302, दूसरा क्रास, सी टीबेड, टी. आर. नगर, बंगलौर-28. कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
67.	85-शिवाजी नगर	श्री एच. जयारामु सं. 7, पहला क्रास, करागप्पा गार्डन, मिशन रोड, संपांगिरामनगर, बंगलौर, कर्नाटक	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया
68.	85-शिवाजी नगर	श्री मुख्तार अहमद, 123-ए, माजिदके पीछे, हनिफिया, कुशल नगर, कोटुगोडाना हाल्ली, बंगलौर-45, कर्नाटक	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया
69.	85-शिवाजी नगर	श्री एस. के. धनराजु, 21/4—11, होसाकेरे हाल्ली, बंगलौर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
70.	86-भारती नगर	श्रीमती एस. मैरी, सं. सी.-621, के.एच. बी. कालोनी, पो. एस. के. नायडु रोड, डोड्डोण्ट्या, कोक्स टाउन, बंगलौर-5, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
71.	111-कोल्लेगल (अ.जा.)	श्री एम. बसावाराजु हाले हंगाल्ली गांव, कोल्लेगल तालुक और पोस्ट, चामराज नगर जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
72.	113-टी. नरसीपुर (अ.जा.)	श्री टी. गोपाल सुपुत्र थाम्मारसैया, 1784, गिरिया बोवी पालया, (टी. नरसीपुर रोड के दायी तरफ), नजरबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
73.	113-टी. नरसीपुर (अ.जा.)	डा. भारथी शंकर एन.एल. सुपुत्र एन. लंगैया, 82, 10वां क्रास, शिवाजी रोड, एन.आर. मोहल्ला, मैसूर-7, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया

1	2	3	4
74.	115—चामराज	श्री एस. जयप्रकाश, 2577, कालिदास रोड, बी.बी. मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
75.	115—चामराज	श्री नटराज, 204, हेब्बाल रोड, सुभाष नगर, मैसूर-16, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
76.	116—नरसिम्हाराजा	श्री आर.एन. महेश, सं. 339, शान्धी मार्ग, सिद्धार्थ लेआउट, मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया
77.	116—नरसिम्हाराजा	श्री ए.आर. कृष्णमूर्ति, सं. 271/1, 3वां क्रॉस, दुर्गादेवी मंदिर रोड, नजरबाद, मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
78.	116—नरसिम्हाराजा	श्री तारीक सैत, सं. 666, बन्नीमन्ताप, बी लेआउट, मैसूर-15, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
79.	116—नरसिम्हाराजा	श्री एच. आर. विश्वकंठगौड़ा, सं. 16, 5वां मेन रोड, 2रा क्रॉस, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, बननीमन्ताप एक्सटेंशन, मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
80.	117—चामुण्डेश्वरी	श्री अयूब अहमदखान, सुपुत्र सुबान खान, सं. 213, एल आई जी आई, 6वां क्रॉस, फर्स्ट स्टेज, राजीव नगर, मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
81.	119—संधेमराहल्ली (अ. जा.)	श्री पी. माहादेवय्या, सुपुत्र एस. पुत्तामादाय्या, ग्राम थोट्टावाडी, पोस्ट कुबुर, तालुका टी. नारासिपुरा, जिला मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
82.	120—चामराज नगर	श्री एम.एस. रविशंकर, सुपुत्र एस.सी. स्वामी, मालेयूर ग्राम, हारवे होब्ली, चामराज नगर तालुका व जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

84147/05-3

1	2	3	4
83.	122—हेगाडादेवनकोटे (अ.जा.)	श्री चौडाहल्ली जावारय्या सुपुत्र जावारय्या चौडाहल्ली, पोस्ट जाकहल्ली, एच डी कोटे तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
84.	122—हेगाडादेवनकोटे (अ.जा.)	श्रीमती एस. जी. विजयलक्ष्मी सिंह पत्नी स्व. एस. आर. गजेन्द्र सिंह, सं. 1666 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, एच. डी. कोटे-571114, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
85.	123—हुनसुर	श्री राजेगोडा, सुपुत्र स्व. पापेगौडा, मनतिकोप्पालु ग्राम, पोस्ट सोमनाहल्ली, हुनसुर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
86.	124—कृष्णराजानगर	श्री पलाक्षा, थान्दे ग्राम मिरले होबलि, के.आर. नगर तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
87.	124—कृष्णराजानगर	श्री केमपेगौडा सिद्धपुर ग्राम व पोस्ट, हेब्बल होबलि, के.आर. नगर तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
88.	124—कृष्णराजानगर	श्री राजय्या डोड्डाकेमपेगौडानाकोप्पाल सिद्धपुर, पोस्ट के. आर. नगर तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
89.	124—कृष्णराजानगर	श्री के.आर. लक्के गौडा, 20 एम आई जी-II, विजयनगर ब्लैक, के.आर. नगर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
90.	125—पेरियापटना	श्री एच प्रकाश सुपुत्र हुच्चेगौडा, चिक्काआप्पालु ग्राम हलियुर, पोस्ट चुनचानाकाट्टे होबलि, के.आर. नगर तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
91.	125—पेरियापटना	श्री लक्ष्मी नरसिमाचार सुपुत्र थाम्माचार, केलागनाहल्ली, पेरियापटना तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
92.	125—पेरियापटना	श्री शशी कुमार सुपुत्र सन्नेगौडा, सान्थेमाला, चिक्कानेराले, पेरियापटना तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
93.	153—मुदीगेरे (अ.जा.)	श्री कृष्ण एम. एस. चात्रा मैदाना, मुदीगेरे, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।
94.	153—मुदीगेरे (अ.जा.)	श्री बी. एम. रमेश बीरीगड्डे गांव, कुन्दुरु पोस्ट, मुदीगेरे तालुक, कर्नाटक	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/कर्ना.-वि. स./2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2005

O. N. 22.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Karnataka Legislative Assembly, 2004 held from the Constituencies of Karnataka State as specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	1-Aurad	Sh. Machindar humaje Machindar Sangramappa R/o Nittur (K), Tq : Aurad (B), Karnataka.	Accounts not lodged.
2.	2-Bhalki	Sh. Maruthi Kalwadi Village, Bhalki Taluk, Karnataka.	—do—

1	2	3	4
3.	2-Bhalki	Sh. Trimbak, Nittur (B) Village, Bhalki Taluk, Karnataka.	Accounts not lodged.
4.	—do—	Sh. Rajkumar C. Mashetty Gallik, Bhalki, Karnataka.	—do—
5.	—do—	Sh. Rajkumar S., Kumbargalli, Bhalki, Karnataka.	—do—
6.	3-Hulsoor (SC)	Sh. Shivakanta Chature, K.H.B. Colony, M.I.G. 6, Bidar, Karnataka.	—do—
7.	—do—	Smt. Shobha Bai Bijapure, Inchur, Tq : Bhalki, Karnataka.	—do—
8.	4-Bidar	Sh. Rafat Mateen, No. 19-1-94, Banker Colony Shivnagar South, Bidar, Karnataka.	—do—
9.	5-Humnabad	Sh. Shivraj N. Katagi, Bagadal, Tq : & District Bidar, Karnataka.	—do—
10.	—do—	Smt. Shobharani, LIG Colony, Humnabad, Karnataka.	—do—
11.	—do—	Sh. Basavaraj Tambake, Talmadgi, Tq : Humnabad, Dist : Bidar, Karnataka.	—do—
12.	—do—	Sh. Mallappa Manikappa Patarpalli, Post : Sindol, Tq. & Dist : Bidar, Karnataka.	—do—
13.	—do—	Sh. Mallikarjun Kamanna Sirsi (A), Sirsi (A), Tq. & Dist. : Bidar, Karnataka.	—do—
14.	6-Basavakalyan	Sh. Nisar Ahmed Md. Hussain, Main Road, Qilla Galli, Basavakalyan, Dist : Bidar, Karnataka.	—do—

1	2	3	4
15.	6-Basavakalyan	Sh. Sardar Khan, Gadiwan Gally, Basavakalyan, Dist. : Bidar, Karnataka.	Accounts not lodged
16.	9-Aland	Sh. Basavaraj V. Diggavi, Ghatge Layout, Gulbarga, Karnataka.	—do—
17.	11-Shahabad (SC)	Sh. Chandrashekhar Naik, Siddu Naik, H.No. 2-3-41, MHP Colony, Shahabad-585229 Karnataka.	Accounts not lodged
18.	11-Shahabad (SC)	Sh. Subhash S. Pawar, Sibar Katta, Shahabad, Karnataka.	Accounts not lodged
19.	11-Shahabad (SC)	Sh. Suresh Basanna Goure, H. No. MIG 41, KHB Colony, Old Jewargi Road, Gulbarga, Karnataka.	Accounts not lodged
20.	11-Shahabad (SC)	Sh. Mohan Hubli, TRT/46/6 ACC Colony, Wadi 585225, Karnataka.	Accounts not lodged
21.	11-Shahabad (SC)	Sh. Timmayya B. Aramane Dariyapru, Ambikanagar Komoor (D), Gulbarga, Karnataka.	Accounts not lodged
22.	12-Afzalpur	Sh. Mallikarjun Shivappa, Minchin, At/Post : Atnoor, Karnataka.	Accounts not lodged
23.	12-Afzalpur	Dr. Indira Shakti, H.No. 7-1101/44A, Lahoti Layout, Gulbarga, Karnataka.	Accounts not lodged
24.	12-Afzalpur	Huchhappa Basanna Gour, At/Post; Gour (B), Karnataka.	Accounts not lodged
25.	12-Afzalpur	Sh. Shivaputrappa, Hanamanthrao Mahantpur, 10-1061, Sharana Nagar, Gulbarga, Karnataka.	Accounts not lodged
26.	12-Afzalpur	Shri Shankargouda Patil, Udachan, At/Post : Udachan, Karnataka.	Accounts not lodged

841 92/05-4

1	2	3	4
27.	12-Afzalpur	Sh. Saibanna Bhimasha Awate, H. No. 5-68B, Afzalpur, Karnataka.	Accounts not lodged
28.	12-Afzalpur	Sh. Mahantappa S. Talawar, At/Post : Tellur, Karnataka.	Accounts not lodged
29.	15-Jewargi	Sh. Khaja Patel, H. No. 16-59, Near Madina Majjid Khaja Colony, Jewargi, Karnataka.	Accounts not lodged
30.	15-Jewargi	Sh. Kallalinga Isvarappa Hugar, Nelogi Post, Jewargi Taluka, Karnataka.	Accounts not lodged
31.	15-Jewargi	Sh. Dharmanna Itaga, Itaga Post, Jewargi Taluka, Karnataka.	Accounts not lodged
32.	16-Gurmitkal (SC)	Sh. Gopal B. Dasankeri, H. No. 4-2-36, Dr. B.R. Ambedkar Nagar, Yadgir-585201, Karnataka.	Accounts not lodged
33.	17-Yadgir	Sh. Shoukath Ali, H. No. 5-2-145, Madanpur, Station Area, Yadgir, Karnataka.	Accounts not lodged
34.	18-Shahapur	Sh. Venkateshwar S. Rathod, Maddi Tanda, Chamanal Tq : Shahapur, Karnataka.	Accounts not lodged
35.	18-Shahapur	Sh. Hanumanth, Mudbool Tq : Shahapur, Karnataka.	Accounts not lodged
36.	18-Shahapur	Sh. Bheemaraya, Halisagar Tq : Shahapur, Karnataka.	Accounts not lodged in the manner required by law.
37.	27-Yelburga	Sh. Manjunath Sorutur, R/o Benkal, Tq : Yelburga, Karnataka.	Accounts not lodged
38.	29-Gangavati	Sh. L. Krishna Laxmappa, Rampur (Res), P/o : Mallapur, Tq : Gangavati, Karnataka.	Accounts not lodged
39.	29-Gangavati	Sh. Mahesh Hiremath, Kanakagir (Res), Tq : Gangavati, Karnataka.	Accounts not lodged

1	2	3	4
40.	30-Koppal	Sh. Kodihalli Chandrashekar, H. No. 34, Marut Nagar, Arisikeri, Hassan Dist. Karnataka.	Accounts not lodged
41.	32-Kurugodu	Sh. B. Shivalinga, S/o. Husenappa, Karchedu Village, Bellary Tq. & Dist., Karnataka.	Accounts not lodged
42.	32-Kurugodu	Sh. Anm Kumar, S/o. Sanna Erappa 5th Ward, Mundargi Village, Bellary (Tq), Karnataka.	Accounts not lodged
43.	33-Bellary	Sh. Sirigeri Pannaraj, Bangalore Road, Bellary, Karnataka.	Accounts not lodged.
44.	33-Bellary	Sh. H. Virupaksha Gowda, 79-8, 17th Ward, S.N. Pet, Bellary, Karnataka.	Accounts not lodged.
45.	33-Bellary	Sh. H. Aleswara Gowda Sulochanamma Compound, Near Gandhinagar Market, Bellary, Karnataka.	Accounts not lodged.
46.	34-Hospet	Sh. E. Chandra Mouli S/o. E. Somappa, 4th Ward, Near Sri. Lakshmi Talkies, Kampli, Karnataka.	Accounts not lodged.
47.	34-Hospet	Sh. Rudra Reddy G. S/o Gowramma, No. 8, 4th Cross, Airport Road, Bellary-4, Karnataka.	Accounts not lodged.
48.	35-Sandur	Sh. B. Rajashekar Goud S/o. B. Shivappa, Yeshwanth Nagar, (Post), Sandur (Tq) Bellary (Dist). Karnataka.	Accounts not lodged.
49.	36-Kudligi	Sh. Abdul Nabi S/o. Mastan Sab, Cowl Bazar, Bellary Tq: Karnataka.	Accounts not lodged.
50.	36-Kudligi	Sh. Sheik Mohamad Sirajuddin, S/o Sheikh Mehaboob, Dhobi Street, Bellary Tq : Karnataka.	Accounts not lodged

1	2	3	4
51.	38-Hadagalli	Sh. Lakkannanavara Mallappa Megala (At & Post) Huvinahadagali Tq. Bellary District, Karnataka.	Accounts not lodged
52.	47-Challakere	Sh. H. Jagaluraiah, S/o. Hanumaiah, Madakari Nagar, Challakere Karnataka.	Accounts not lodged
53.	48-Hiriyur (SC)	Sh. B. Bheemaiah 135, 5th Main, KGE Layout, Devasandra R.M.V. 2nd Stage, Bangalore-94 Karnataka.	Accounts not lodged
54.	48-Hiriyur (SC)	Sh. B. Thimmaiah, Gudihalli Village, Imangala Hobli, Hiriyur Taluk, Karnataka.	Accounts not lodged
55.	49-Holalkere	Sh. N. Jayappa S/o. Nagappa, Padigatte, Holalkere Taluk, Karnataka.	Accounts not lodged
56.	56-Koratagere	Sh. Chikkeerappa TG S/o. Ganganna Behind Kalidasa High School Gondihalli Road, Koratagere Town, Tumkur Dist., Karnataka.	Accounts not lodged
57.	57-Tumkur	Sh. S. Kumar S/o. Shivanna, Seebi Thota, Hanumantha Pura, Tumkur, Karnataka.	Accounts not lodged
58.	57-Tumkur	Sh. Shivakumar H.R. S/o. H.S. Rajashekariah, IVth Main Road, Siddaganga Extension, Tumkur, Karnataka.	Accounts not lodged
59.	58-Kunigal	Sh. B.T. Sreenivasa Gowda S/o. B. Thimma Gowda 1662, Mahaveera Nagar, Kunigal, Karnataka.	Accounts not lodged
60.	58-Kunigal	Sh. P. Suresh, S/o. Parashuramaiah, Siddartha Colony, Kunigal Town, Tumkur Dist., Karnataka.	Accounts not lodged

1	2	3	4
61.	60-Gubbi	Sh. Chicknanjaiah, S/o. Doddananjaiah. Doddanettaunte M.H. Patna Post Gubbi Taluk, Karnataka.	Accounts not lodged.
62.	61-Turuvekere	Sh. Krishnappa, S/o. Mayashetty Gowda, Gottikere, Kasaba Hobli, Turuvekere Taluk, Karnataka.	Accounts not lodged.
63.	78-Gandhinagar	Sh. K.C. Rahamathullah, No. 30, 5th Main Road, Gandhinagar, Bangalore-560009. Karnataka.	Accounts not lodged.
64.	79-Chickpet	Sh. Abdulla, No. 1, 4th Cross, Becradevara Gudi Lane, Ranasingpete, Bangalore-53, Karnataka.	Accounts not lodged.
65.	80-Binnypet	Sh. Udayshankar, No. 172, MIG 'C' Building, No. 8, 2nd Floor, 3rd Stage, KHB Colony, Kengeri Sattelite Town, Bangalore-560060, Karnataka.	—do—
66.	82-Basavanagudi	Sh. N.C. Krishna Kumar, #302, 2 nd Cross, C.T. Bed, T.R. Nagar, Bangalore-28, Karnataka.	—do—
67.	85-Shivajinagar	Sh. H. Jayaramu, No. 7, 1 st Cross, Karagappa Garden, Mission Road, Sampangiramanagar, Bangalore, Karnataka.	Accounts not lodged in the manner required by law.
68.	85-Shivajinagar	Sh. Mukhtar Ahmed, 123-A, Hanifiya behind Mazid, Kushalanagar, Kodugondana Halli, Bangalore-45, Karnataka.	—do—
69.	85-Shivajinagar	Sh. S.K. Dhanraju, 21/4-11, Hosakere Halli, Bangalore, Karnataka.	—do—

1	2	3	4
70.	86-Bharathinagar	Smt. S. Mary, No. C-521, KHB Colony, PSK Naidu Road, Doddigunta, Cox Town, Bangalore-5, Karnataka.	Accounts not lodged.
71.	111-Kollegal (S.C.)	Sh. B. Basavaraju, Hale Hanagalli Village Kollegal, Taluk & Post, Chamarajanagar, Dist. Karnataka.	Accounts not lodged.
72.	113-T. Narasipur (SC)	Sh. T. Gopal, S/o. Thammaraiah, # 1784, Giriya Bovi Palya, (Right Side of T. Narasipura Road), Nazarbad Mohalla Mysore, Karnataka.	—do—
73.	113-T. Narasipura (SC)	Sh. Bharathi Shankar N.L., S/o. N. Langaiah, # 82, 10 th Cross, Shivaji Road, N.R. Mohalla, Mysore-7, Karnataka.	—do—
74.	115-Chamaraja	Sh. S. Jayaprakash, #2577, Kalidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore, Karnataka.	—do—
75.	115-Chamaraja	Sh. Nataraju, # 204, Hebbal Road, Subbhash Nagar, Mysore-16, Karnataka.	—do—
76.	116-Narasimharaja	Sh. R.N. Mahesh, No. 339, Shanthi Marg, Siddartha Layout, Mysore, Karnataka.	—do—
77.	116-Narasimharaja	Sh. A.R. Krishnamurthy No. 271/1, 3rd Cross, Durgadevi Temple Road, Nazarbad, Mysore-15, Karnataka.	—do—
78.	116-Narasimharaja	Sh. Tariq Sait, No. 666, Bannimantap, 'B' Layout, Mysore-15, Karnataka.	—do—
79.	116-Narasimharaja	Sh. H.R. Vishkantegowda, No. 16, 5th Main Road, 2 nd Cross, Op. Tel. Phone Exchange, Bannimantapa Extension, Mysore, Karnataka.	—do—

1	2	3	4
80.	117-Chamundeswari	Sh. Ayub Ahmed Khan, S/o Suban Khan, No. 213, LIGI, 6th Cross, 1st Stage, Rajeev Nagar, Mysore, Karnataka.	Accounts not lodged.
81.	119-Santhemarahalli (S.C.)	Sh. P. Mahadevaiah, S/o S. Puttamadaiah, Thottavadi Village, Kubur Post, T. Narasipura Taluk, Mysore District, Karnataka.	Accounts not lodged.
82.	120-Chamarajanagar	Sh. M.S. Ravishankar, S/o. M.C. Swamy, Maleyur Village, Harave Hobli, Chamarajanagara, Taluk & District, Karnataka.	—do—
83.	122-Heggadadevanakote (S.C.)	Sh. Chowdahalli Javaraiah, S/o. Javaraiah Chowdahalli, Jakahalli Post H.D. Kotre Tq. Karnataka.	—do—
84.	122-Heggadadevanakote (S.C.)	Smt. S.G. Vijayalakshmi Singh W/o. Late S.R. Gajendra Singh, No. 1666, Housing Board Colony, H.D. Kote-571114, Karnataka.	—do—
85.	123-Hunsur	Sh. Rajegowda, S/o. Late Papegowda, Mantikoppalu Village, Somanahally Post, Hunsur, Karnataka.	—do—
86.	124-Krishnarajanagar	Sh. Palaksha, Thandre Village Mirle Hobli K.R. Nagar Taluk, Karnataka.	—do—
87.	124-Krishnarajanagar	Sh. Kempegowda Siddapura Village & Post Hebbal Hobli, K.R. Nagar Taluk, Karnataka.	—do—
88.	124-Krishnarajanagar	Sh. Rajaiah Doddakempegowdanakoppal Siddapura Post K.R. Nagar Taluk, Karnataka.	—do—
89.	124-Krishnarajanagar	Sh. K.R. Lakke Gowda, 20 M.I.G.-II, Vijayanagar black, K.R. Nagar, Karnataka.	—do—

1	2	3	4
90.	125-Periyapatna	Sh. H. Prakash, S/o Hucchegowda, Chikkakoplu village, Haliyur Post Chunchanakatte Hobli, K. R. Nagara Taluk, Mysore District, Karnataka.	Accounts not lodged.
91.	125-Periyapatna	Sh. Lakshmi Narasimachar, S/o Thamunachar, Kelaganahalli, Periyapatna Taluk, Mysore District, Karnataka.	Accounts not lodged.
92.	125-Periyapatna	Sh. Shashi Kumar, S/o Sannegowda, Santhemaia Chikkanerale, Periyapatna Taluk, Mysore District, Karnataka.	—do—
93.	153-Mudigere (S.C.)	Sh. Krishna M.S., Chatra Maidana, Mudigere, Karnataka.	—do—
94.	153-Mudigere (S.C.)	Sh. B.M. Ramesh Byrigadda Village, Kundooru Post, Mudigere Taluk, Karnataka.	—do—

[No. 76/KT-LA/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

आ. अ. 23.—आयोग के आदेश संख्या 76/कर्नाटक-लो.स/2005 दिनांक 7 मार्च, 2005 में, क्रम सं. 5 पर 17—मंगलूर के सामने स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि “लेखा दाखिल नहीं किया” को “विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल नहीं किया” पढ़ा जाए।

[संख्या 76/कर्नाटक-लो.स/2005]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ERRATA

New Delhi, the 16th March, 2005

O. N. 23.—In Commission's Order No. 76/KT-HP/2005 dated the 7th March, 2005 existing entry in column 4 against 17-Mangalore at Sl. No. 5, the entry “Account not lodged” may be read as “Account not lodged in the manner required by law”.

[No. 76/KT-HP/2005]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.